

... स्थलाकृतिक मानचित्र ...

प्र०

परिचय → आगे मानचित्र प्रशिक्षण के प्रकार जीव महत्व मानचित्र अपनी वास प्रोत्तों और वाकों के नामों की बुनियाही प्रवर्णावली लें। इस प्राचीर के पिछले छोड़ में पढ़ा है। उस छोड़ में, आप स्थलाकृतिक मानचित्रों के लाभ से उद्ययन करें। आपको बिल्डिंग के स्पष्ट में एक चमारी मानचित्र वालों के लिए मानचित्र की वापसी की गणनीय जीव उकाऊ उचित उपयोग नहीं पाता होना चाहिए। मानचित्र की वापसी की वापसी मानचित्र जीव के लिए उपयोग करना है। इसमें जैव विवरणों के समूह के निर्मित होते हैं। निससंदेश स्थलाकृतिक मानचित्र को मानचित्र के ओलों का एक महत्वपूर्ण सौत माना जाता है। यह पूर्णी भूमि की सतह की त्रिविन्द्र प्राणीतक जीव सांस्कृतिक विशेषताओं के लाभ में स्थीर और धारागिरि जानकारी प्रदान करता है।

- अपेक्षित स्वीकृति के परिणाम ⇒ इस छाइ का अध्ययन करने के बाद, आप जिम्मेदारियां में सक्षम होंगे।
- पहला स्कैप कि स्थलाकृतिक मानचित्र जीव स्थलाकृतिक मानचित्रों की विभिन्न संख्याओं का उपयोग करके स्थलाकृतिक मानचित्रों की विभिन्न संख्याओं का उपयोग करके स्थलाकृतिक मानचित्रों पर उचावच लक्षणों जो चित्रित लक्ष सकेंगे।
  - स्पलाकृतिक मानचित्रों का उद्ययन करने पर जीव स्पलाकृतिक मानचित्रों की विशेषताओं के विवरण करके सकेंगे।

TEACHER'S SIGNATURE \_\_\_\_\_

## भूगोल प्रयोगात्मक

### (Geography Practical)

PAGE NO

- उच्चारित ⇒ पहाड़िया, घाटिया, ढोन, तटस्थ, तथा उत्तरमालनुपरी।
  - जलरसिक ⇒ झील, नालाय, पानी की टंकियाँ, नदियाँ, जले, तथा अनुप्र  
ंग मैदान,
  - वनस्पति ⇒ वन, वनाच्छादित और साफ किसी गांव हेतु, घार, वृक्षान्तीपण  
प्रार
  - सास्कृतिक ⇒ सड़क, ब्रेलवे, हवाई अड्डे, भवन, चूमीय और व्याहरी  
एस्टेट्याँ, स्पानों के नाम और भौगोलिक लक्षण, विशेषज्ञान,  
ग्रामास्निक सीमावर्त्त वाज्य और अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्त्त आदि।  
किसी भी स्थलाकृतिक मानचित्र में समीक्षा केखाओ और इसका दिखाए गारु  
उच्चारित लक्षण हनकी प्रमुख विशेषज्ञावर्त्त होती है। स्थलाकृतिक मानचित्र  
द्वैनिमिक मानचित्र से अभिन्न होता है। जिसमें व्याक, भवन प्राचि और  
सुविधाएँ दिखाई जाती हैं लेकिन वो इसमें समीक्षा केखा दिखाई नहीं होती है।

**TEACHER'S SIGNATURE**

# भूगोल प्रयोगात्मक (Geography Practical)

Page No. 3

भारत में स्पष्टाकृति का विकास  $\Rightarrow$  अंतर्राष्ट्रीय पैक नामक जर्मन यूरोपीय पहला ब्रावो था, जिसने 11,00,000 मापनी पर पुस्तक विद्यव की मानचित्र का प्रसारण हीमे 1801 में आयोजित पारवे अंतर्राष्ट्रीय गोपीयोगीय कांग्रेस (International geographical Congress 1801) में बता था। इसे चित्रत के (International Map of World. IMW) के क्षम में जाना जाता है। उन्होंने सुनाव संकेती का एक सामान्य समूह होना चाहिए ताकि प्रद मीषुद सामाधित व्यापार की जटिलता को इस जर्वेन के लिए पुस्तक विद्यव की एक जई मानचित्र प्रतिशिंख बनाने में मदद कर सके। उसका एक सार्वजनिक मानकता के लिए उल्लेख किया गया था। कई चर्चाओं के बाद, इत्यती, फ्रांस, मेर, ब्रिटेन और जर्मनी की अधिकारीक मानचित्र ने इस लाभ (मिलिप्न) मापनी में विदेशी क्षेत्रों की अधिकारीक संस्थानों ने इस लाभ (मिलिप्न) मापनी में विदेशी क्षेत्रों की अधिकारीक मानचित्र छह अंकों तकमास जर्वेन के लिए सर्वेक्षण शुरू किया था।

विद्यव का अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र (IMW) शुरूवात  $\Rightarrow$  प्रथम अंतर्राष्ट्रीय लाभ (मिलिप्न) के मापनी पर अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र के लिए उपयोग की जाती है, पर्याक अंकाचित्र / बीट में अक्षांश के 4 अंश और देशान्तर के 6 अंश होते हैं। अंकाचित्र / बीट की ज्योतिरीकृत स्थिति को दो अक्षरों और एक संख्या द्वारा परिभ्राषित किया जाता है। पहला अक्षर N मा S है, जो इस पर निर्भर करता है। कि अंकाचित्र पर शीट भूमध्य देशों के उल्लंघन में स्थित है। N चाउ के बाद अक्षला अक्षर, पर्याक 4 अंश के संख्या 180 अंश देशान्तर के बाद होती है, और प्रत्येक लो दर्शाता है। आव 60 संख्या 174 अंश में 180 अंश पूर्व का प्रतिनिधित्व करता है। अक्षांशों को ८.

Teacher's Signature

# भूगोल प्रयोगात्मक (Geography Practical)

Page No. 4

१० अंबा के ५ लाख टन (र) में NV (११ अंबा के २२ लाख टन रिप्र.)  
ला तो १० अंबा के ५ लाख टन (र) में NV (११ अंबा के २२ लाख टन रिप्र.)  
के रूप में उपरोक्त छारा विस्तृत किया जाता है।

भारत और भारतपात्र के देशी की स्थलाकृतिक अवधित / बीट रिप्र.

इसके इताग पर्याय + अंबा x + अंबा तर्फ पा। अंबा अवधित / बीट  
हो, अंबा x, अंबा के १६ समान आगों में उप - विभाजित  
किया जाता है। प्रत्येक जाल को वर्णमाला के साथ  
अन्नपुर्णास्त्र A B C D E ज H I J K L M N O और P के रूप में निर्दिष्ट  
किया गया है। प्रत्येक जाल को वर्णमाला के बाद अवधित / बीट  
(इच से ५ मील) को अंबा अवधित / बीट मा चतुर्थांशि - छवे  
(छवाचित / बीट के लिए जाता है। आप चित्त ११.३ का उल्लेख कर सकते हैं,  
जो ग्रिन - ग्रिन मापनी पर स्थलाकृतिक अवधित / बीट घनों के लिए  
आनंदीप सर्वेषण छारा अपनाई गई भान्तीप स्थलाकृतिक रूपेण्या  
भारत प्रगल्ली की व्याख्या करता है।

फिर से प्रत्येक, अंबा x, अंबा मानवित (अंबा अवधित / बीट) को दो  
तरीके की मदद से ऊप - विभाजित किया गया है। पहले क्रम में,  
प्रत्येक बीट को ३० अंबा x ३० अंबा के ५ वर्षावर्ष आगों में  
विभाजित किया जाता है। और इसे उत्तर - उपर्युक्त, उत्तर - पूर्व  
दक्षिण - पश्चिम और दक्षिण - पूर्व नाम दिया गया है। उदाहरण के  
लिए ५३ M (दक्षिण पूर्व)। ये मानवित १:१००,००० (१ डंच से २ मील) के  
मापनी पर तथार किम्बे गर्व हैं। और इन्हे आधा अंबा की  
अवधित / बीट या आधा डंच मा चतुर्थांशि के मानवित के रूप  
में जाना जाता है।

Teacher's Signature

स्थानांकिक मानचित्र → स्थानांकिक मानचित्र वह है जो स्थानांकिक प्रभावों का लिखित सराव का मानचित्र होता है। इसमें स्थानांकिक वर्णनकारी प्रभाव वह है जो यु-पतल (Topographic relief) वाली कहते हैं। पर (Topographic relief) वाली कहते हैं। पर उद्दीप मानचित्र लेता है, इस मानचित्र में किसी छोटे स्थान के क्षेत्र के बड़े बड़े प्रभावों पर पदर्शित किया जाता है। इस मानचित्रों से सामाजिक तथा वास्तविक विशेषताओं को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें ऊंचे महत्वपूर्ण पारातिक स्थान स्थानांकिक वर्णन जाता है। यह स्थानांकिक मानचित्रों में विभिन्न कीर्तिक और स्थानांकिक लक्षणों को अग्नि-अग्नि संबंधों की स्थापत्य से बदल किया जाता है, जिन्हें न्यू-या परम्परागत चिन्ह कहते हैं। जोसी भी स्थान की स्थानांकिक मानचित्र में निर्गतिविधि सूचनाएँ पदर्शित की जाती हैं।

### प्रारम्भिक सूचनाएँ - इसके अन्तर्गत

- साज्ज का नाम, पिले का नाम
- उद्धारीय स्थानांकिक विस्तार तथा ग्रिड
- नम्बोदित के सर्वेक्षण वह स्थान प्रकाशन की तिथि
- यु-पतल (डीट) की संरचना
- यु-पतल का साप
- उत्तर की दिशा तथा चुम्बकीय दिशानाम
- यु-पतल की स्थिति, विस्तार स्वरूप वस्त्र व स्थल परम्परागत चिन्ह,

Teacher's Signature

इनके व्यवस्थित लक्षणाकानिक मानविक में अनिवार्यता शहरों की जाती है।

- उच्चावच स्वतं प्रब चराहे  $\Rightarrow$  भू-पतकों में समौच देखाओ बारा उच्चावच स्वतं छारातल ली देखना तथा दाल खाने किया जाता है। भू-पतकों में जल चराहे को भी शहरीने किया जाता है। इनमे पदर्थित छारातल की संख्यना तथा छल के जरा नदी घाटियों के आकास का जान पात है। लाना है। उच्चावच को समौच देखाओ के अनिवार्य संगों के माध्यम से पदर्थित किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों को समान्यतः हल्के चा गहरे भूजे संग से मदर्थित किया जाता है। इसके अनिवार्य भू-पतकों में, झील, तालाब और फौजदारी को भी पदर्थित किया जाता है। नदियों तथा नद्दों झील तथा तालाब द्वा चित्रण पाय। नीले संग से किया जाता है।
- मानविक वनस्पति  $\Rightarrow$  भू-पतकों पर विभिन्न संगो बारा वनस्पति के विभिन्न आकार स्वर उनका वितरण पदर्थित किया जाता है। है संग से मानविक वनस्पति तथा - घास, झाड़ियों तथा वृक्ष आदि पदर्थित किये जाते हैं। इनके अनिवार्य वास्तविक न्यौष्ठित वृक्षों जो भी पदर्थित किया जाता है।
- मानव अधिवास  $\Rightarrow$  भू-पतकों में मानव वसाव को भी पदर्थित किया जाता है जिससे बस्तियों की स्थिति और मानव - अधिवास के आकार और चरित्र (दग) का सामान्य जान पात है जाता है। द्वारा ग्रामीण स्वतं नगरीय बस्तियों का अध्ययन किया जा सकता है।

स्थानकों का विवर → यू-पत्रकों में गाँवों में बालकों तथा बालिकाओं की व्यापकता और बालिकाओं की स्थिति के विवरण लाखों लाखों के लाल लाल विवर विवर का अनुमान दिया जाता है।

ग्रामांश के साधन → यू-पत्रकों में रेतमार्गों, साक गढ़ों, छालडेशों को परम्परागत चिह्नों द्वारा चिह्नित किया जाता है इनके द्वारा भौम-चिह्नों ने ग्रामांश मार्गों का उत्तर पर लायलित परिवहन साधनों का जान पाया किया जाता है। यू-पत्रकों में हवाई उड़ानों को भी चिह्नित किया जाता है। यू-पत्रकों में उड़ों और बांधों को भी चिह्नित किया जाता है। इनमें विजली लाइनों की भी जागांशी द्वारा चिह्नित होती है।

सिंगाई के साधन → यू-पत्रकों में छापि क्षेत्र पीले सा से नीला भालूकी वर्जन-पत्रकी द्वारा संग से परिचित की जाती है। यू-पत्रकों में परिचित परम्परागत चिह्नों से सिंगाई साधनों का जान हो जाता है। इनमें शूपों नहों और जलसागों आदि की चिह्नित भी परिचित होती है।

यदि यू-पत्रक में सिंगाई के साधन जटि दिल गल्स हैं तो इसका एक उर्ध्व छापा कि छापि तर्फ पर ही निर्भर करती है।

छापि और उषोग-चन्दे → यू-पत्रकों के माध्यम से क्षेत्र के नृसिंह उषोग लो भी परिचित किया जाता है। यू-पत्रकों के अध्यापन द्वारा मानवीय कियागतपो पेंसे → शावे तथा पशुपालन का लाल भी पाया होता है। इनके अध्यापन से संपर्क होता है। इनके अध्यापन द्वारा क्षेत्र में स्थित उषोगों के विवर


में सत्ताकारी घोषणा की जा सकती है।

### स्थलाण्डिक मानचित्रों की सहजता

प्रत्येक विद्यार्थी ने प्रत्येक भौगोलिक मानचित्र बनाया है, जिसमें विभिन्न वर्षों के अनुसार विभिन्न विधियों की समाप्ति का अवलोकन किया जाता है। इस द्वेष की सहजता से संबंधित कानून अपने लिए उपयोग करने की जाती है।

### स्थलाण्डिक मानचित्रों की सहजता

प्रत्येक विद्यार्थी ने किसी स्थान के भौगोलिक (भौतिक और साम्प्रदायिक) संरचना को जात किया जा सकता है। किसी द्वेष के भौतिक सम्बोधों को सहजतापूर्वक स्वरूप अपनाया जाना चाहिए। उच्चावच, जल गमन के आधार पर जात किया जा सकता है। उच्चावच, जल गमन सह उपलब्धिक वनस्पति के आधार पर स्थानीय जलवाया का जुमान लगाया जा सकता है। इनके साथ ही मानव विस्थाव के आधार पर जनसंख्या का वितरण और धनत्व जात किया जा सकता है। सड़क मार्ग, झार्मार्ग, वन (मानिस, मार्गिदारी) सह संचार साधन द्वेष हैं, जो सभी लक्षण उस द्वेष के विकास और समस्याओं को इंगित करते हैं। इन सूचनाओं की जानकारी भू-प्रत्येकों (टोपोबोट) से प्राप्त हो जाती है।



Teacher's Signature

## स्थानाधिक मानवितों की उपरोक्ति

लेही यह एवं पर विभिन्न विभिन्न जौगिक वाले समाज का लिखा रखते हैं पाल और वैल विवरणों (internal relationships) विवरण जौगिक व्यापका वाचनी होते हैं। स्थानाधिक मानवितों द्वा वाइपा डीर्घ साथ जही है, वर्तमान समय से स्थानाधिक मानवित वाक्योंकी है। मुख्यालय डीर्घ यह अन्य जौगिक विवरण अनुसन्धान में इनका उपयोग किया जाता है। जौगिक विवरण के अधिकान में मानवित जौगिक गतिविरोधों, प्रगत्यान निरोधन के लिया भी उपयोग होते हैं। किसी एकार की जौगिक गोष्ठी भी यह चैमोने पर वार्तानिर्माण शब्दन और अन्य स्थिविल उड़ीनिपस्तिंग के कार्यों में इनका उपयोग किया जाता है। जौगिक वाचा तथा अन्वेषण के लिया भी उपयोग होते हैं।

## उच्चावच के निरूपण की विधियाँ

मुख्य समाज जही है तथा इसपर विभिन्न एकार के पर्वत-पठाडियों, पठास तथा भैंदान स्थित है। मुख्य के जौगिक लक्षणों को उच्चावच (उच्चान स्थं अवनयन) के रूप में जाना जाता है। इन लक्षणों को एकत्रित वाले मानवित को उच्चावच मानवित कहते हैं। यहाँ से मानवितों पर उच्चावच लक्षण प्रदर्शित करने के लिए अनेक विधियों का उपयोग होता सह है। ये विधियों हैं ईश्वर, पठाड़ी छापाकन, स्तर आभा, धोंच मार्क, स्थानिन जैराई तथा समोका देखाते।

Teacher's Signature \_\_\_\_\_

सभी इनाहारिक मानचित्रों पर निम्नी क्षेत्र के उच्चावच को  
दिखाने के लिए समौचा रैखा वर्ग इनके अधिक उपयोग का  
स्थानिक उपयोग किया जाता है।

### समौचा रैखा

समौचा रैखा समुद्र तल से समान ऊँचाई वाले विद्युओं को  
प्रिवाने वाली आत्पनिक सेवा होती है। अप्लाईकेशन मानचित्र  
कह मानचित्र, जो भू-आवृति को सर्वोच्च सेवाओं द्वारा  
प्रदर्शित करता है। इन्हे समाच्य सेवा मानचित्र भी कहा जाता है।  
उच्चावच लक्षणों को समौचा रैखा के द्वारा दर्शाया  
अत्यधिक उपयोगी रूप लोकप्रिय विद्यि है। मानचित्र पर अकित  
समौचा सेवाओं के माध्यम से उच्चावच को समझने की  
सक्षमता उपयोग विद्यि है।

### प्रमाणागत चिन्ह या सूट चिन्ह (Conventional signs)

अप्लाईकेशन मानचित्र में मिन - मिन भौतिक और स्थालाईकेशन  
लक्षणों को मिन - मिन संकेतों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।  
प्रमाणागत चिन्ह या सूट चिन्ह से तात्पर्य उन चिन्हों या संकेतों  
से होता है, जो अलग - अलग भौतिक और सांस्कृतिक व्यूहों  
को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने जाने हैं प्रमाणागत सूट से  
उन चिन्हों या संकेतों को मानचित्र के निरूपण के लिए प्रयोग  
किया जाता है। इन प्रमाणागत चिन्हों का निर्दीशण अन्तर्राष्ट्रीय  
स्तर पर किया जाता है।

## भूगोल प्रयोगात्मक (Geography Practical)

Page No. 12

~~प्रसारणात नियोजन के बाप्प जाय के प्रति मानविता में  
जिन्होंने ज्ञान को प्रयोग किया था उसका है। इन वैज्ञानिक  
ज्ञान मानवितों ने मानविता का विकास किया है। इन वैज्ञानिक  
विद्या वित्ती हैं।~~

- ~~ताल झंग~~ ⇒ ताल झंग का प्रयोग जावन (विद्युतीय) और संकलन  
मार्गों को प्रदर्शित करने में किया जाता है।
- ~~पीला झंग~~ ⇒ पीला झंग का प्रयोग कृषि छेत्रों के प्रदर्शन में  
किया जाता है।
- ~~हरा झंग~~ ⇒ हरे झंग से वन, मानविता वनव्यूपनि, भूस्य तथा  
बाग-बागीचे व अदि प्रदर्शित किया जाते हैं।
- ~~नीला झंग~~ ⇒ नीले झंग ज्ञान तालाब, नदी, झील, सागर आदि  
जलारम्भ छेत्रों अधिक विभिन्न जल छेत्रों को प्रदर्शित  
किया जाता है।
- ~~आला झंग~~ ⇒ इसका प्रयोग स्थिमास्य मनुष्य करने तथा सेलवैलाइन  
को प्रदर्शित करने में किया जाता है।
- ~~गुर्ज़ि झंग~~ ⇒ गुर्ज़ि झंग ज्ञान ऊँचाई प्रदर्शित करने तथा  
लिए स्थानों के स्थान में बनाई जाती है।
- ~~भूरा झंग~~ ⇒ भूरा झंग पर्वतीय छेत्रों के घायालन में प्रयुक्त  
किया जाता है।

Teacher's Signature

## भूगोल प्रयोगात्मक (Geography Practical)

Page No. 13

विद्युत ऊर्जा का मानचित्र → भारत के नवीनीयों ने 2005 की सालद्वितीय मानचित्र अक्षर एवं शीति के अनुसार भारत और समीपवर्ती देशों को है। रक्षा अंतर्गत भारत की मानचित्र अंकन मणिली की उत्कृष्टता सुझाई है। ये दो मानचित्र अंतर्गत हैं। ये दोनों मानचित्र नाम के अनुसार साधारणतिक मानचित्र हैं। मुख्य रूप ये देशों और साधारण मापनी सुनिश्चित रूपरेखा / डब्ल्यूजीएस - 84 आधार और बहुशाकुक्र / गोल्डम वक्षीपण का उपयोग करके देशों के अंतर्गत मानचित्र तैयार किये जाते हैं।

विद्युत ऊर्जा का मानचित्र के लिए अपनाई गई अंकन मणिली द्वारा की अंतर्द्वितीय मानचित्र पर आधारित होती है। ये देशों को आठत बनाने वाली अंकन / शीति का अधिकार्यालय चित्र 11.4 से प्रस्तुत किया गया है। मानचित्र अंकन मणिली इस प्रकार है।

Teacher's Signature

### स्थानीय सोचना

पह इस उपकरण के लिए आज जबर्दस्ती के विवेचन के माध्यम से किसी बदलूँ / दूरगा पा दीन के लाई भी जानकारी प्राप्त करने का विकास होता है। जो जाति की जा रही है। बदलूँ के संपर्क से ही जो नहीं है। यह तकनीक पहली बार 1840 में अमरीका में इसके लाला तकनीकी गई। इसके लाला प्रथम उत्तर पूर्व में ऐतियां सर्वेश्वरों के लिए हवाई जगत में निर्माण दिया गया।

इस तकनीक में स्टैरलाइट और एरिमल सांबंधित नैसिंग दीनों व्हास्त्रिल है। इस तकनीक का आधार व्यात विद्युत चुहाकीय विकिरण हीनी है। यहाँ से मह ऊर्जा पूर्णी की सतह तक पहुँचती है। और किन से परवर्तित या गोष्ठी या अवशोषित होती है जो उपग्रह और सौर स्ट्रेंगर द्वारा समझता की जाती है। या फौटोग्राफिक फिल्म में दर्ज की जाती है। हवाई के मुद्रे से उत्पादें को 'फौटोग्राफ' जूदा जाता है। और छारे डेटा के किसी भी व्याचित्र गतिशील के लिए व्याकु छवि का उपयोग किया जाता है। किसी बदलूँ का पतिष्ठित, मेघना, ऊर्जा का अवशोषण किसी छवि या तस्वीरों में चमक या उंडीवा करने के द्वारा आधार बनाता है। सुविधाओं की पहचान के लिए इसकी आगे की व्याख्या की गई है।

### व्याख्यातिक ⇒

व्याख्या करने में बहुपूर्ण तथा और सौख्यों की पहचान, पहचान, विवरण और मुख्याकान की व्यक्तियाँ हैं। व्याख्या की अपार्क्या या तो दृश्य पा डिजिटल या दीनों का

Teacher's Signature

इसीपें यह साक्षाৎ है, दोनों तरफीकों में गुल और अतारुष वा विश्वेषण किया जाता है। और डिजिटल विश्वेषण के बाद भी परिणाम वा विश्वेषण किया जाता है।

### स्थीत

व्याख्या के एक तत्त्वों के संभोजन इस बिंदु त्रितीय में होता सामग्री के माध्यम से किसी वस्तु की प्रदर्शन करने की मानव जी क्षमता। किस्ति / तस्वीरों से छानकारी निकालने के दो प्रकार हैं।

इसपर विश्वेषण इसका डेटा की क्ष व्याख्या

(1) ऑनस्टीन डिजिटाइजेशन ऑर्डर (ATM/DEM) जेनरेशन के माध्यम से लाइनपुंज इमेज से प्रति जैसे व्यूज वा विश्वेषण के बाद कंप्यूटर अष्ट्रिचालू होता है। इसी प्रकार इसपर विश्वेषण के माध्यम से उड़ी जनसशान के माध्यम से हवाई चित्रों की व्याख्या की गई है।

इसपर की व्याख्या क्रिया को कुछ चरणों में पुरी तरह से विभाजित किया जा सकता है।

### व्याख्यातक मूल तत्त्व

उपर्युक्त इमेजरी और हवाई चित्रों की व्याख्या में वर्णक्रमीय ट्रैडिंग के संदर्भ में किसी वस्तु के विभिन्न स्वार लक्षणों का विश्वेषण शामिल है जो इसपर विश्वेषण में उपयोगी है। मूल पदार्थ आकार, आकार, साकृति, स्वर, स्प, घासा, व्यथान, संघर्ष और संबंधित हैं।

प्राक्ति → लग्न वा वाहनी का अपरिभास वा वाहन। इसमें प्राकृतिक विशेषताएँ शामिल हैं (उदाहरण: बुजुनी वाहन) दिल्ली मानव विविध विशेषता (उदाहरण जीका स्ट्रीट बाजार, बिल्ली)

प्राणार → पह युल छवि / फोटो के द्वारा ऊर्जा कंकाली पर खतिकेपा करता है। छोटे तरत घोड़े द्वारा की छवि में आसानी से डॉर्कर, फोटो विशिष्ट।

आवर्ती → ऐसो में किसी वस्तु की साकल विवरण : इसी मासानी से एक सड़क और रेलवे लाइन के विवरण के माध्यम से उसमें जा सकता है। दौलाकि दोनों दिवें हैं। मुख्य सड़के पड़ी वर्कों से पुढ़ी है और छोटी स्पष्ट के साथ ऊर्जा सड़के हैं।

स्वर ⇒ किसी वस्तु के संग या सौंपें झलक को संदर्भित करता है। वैश्विकीकरण किसी वस्तु का प्रतिविवरण संघर्षण: जिमीदारी पा अवश्यीयन चार्टक के लाग्न होता है। पह एक तर्ज से दूसरी वस्तु में भिन्न हो सकता है और विभिन्न छोड़ के संदर्भ में भी लादल सकता है। सामान्य तरीके पर आवर्तन स्तर में उच्च प्रावर्तन, छुटरे स्तर पर आम प्रावर्तन होता है। इस घटना को इन्हारेड और लाइ इमेजरी के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है।

Teacher's Signature

Date \_\_\_\_\_  
व्याख्या के बारे में

- (i) लोर्ड अलकार और संकाय ।
- (ii) हैस्टर समझ की उत्त्पत्ति की कही।
- (iii) प्रथम वर्ष के उचित वार्तालाइन चर्चित को पढ़ें।
- (iv) सक लाई में जानकारी की 3 परतों की विपुलता कम का व्याख्या करें।

व्याख्या की समलता

- दुष्माणिया का प्रशिक्षण और अनुभव
- फोटो / आकार की चुनावांगी
- विश्लेषण क्षेत्र का स्थानीय ज्ञान।

प्रश्न में व्याख्या

- सख्त विधि
- लक्ष्यकी उपनारण
- छवि की चमक और सकल स्मारकी का उपयोग करता है।
- विशेषज्ञ और विशेषज्ञताएँ
- ठोस

## भूगोल प्रयोगालयक (Geography Practical)

Page No. 18

रेखाएँ इसका किसी भी भूमि का ऊर्ध्व नाम उनके लो तरह जैसा है। यह एक वर्ष + उच्चता भूमि के बीच की रेखा है। यह अपने ऊर्ध्व नाम + उच्चता भूमि के बीच की रेखा है। यह अपने ऊर्ध्व नाम + उच्चता भूमि के बीच की रेखा है। यह अपने ऊर्ध्व नाम + उच्चता भूमि के बीच की रेखा है।

(Lines are often referred to as Contour lines a contour is an imaginary line which joins place of equal altitude above the sea level.)

तस्कुल किसी छोड़ के मानवित पर समान ऊर्ध्व की लो मिलते वाली रेखाएँ (वर्ण) समीक्ष सेवाएँ लातवाती हैं। मानवित पर समीक्ष सेवाएँ यहे दंग से 20, 50, 1000 तक 200 मीटर ऊर्ध्व घृट के अन्तर पर चीरी जाती है।

समीक्ष सेवाओं की विवेचनाएँ

- ऊर्ध्व वर्ण स्थानों को मिलते हुए चीरी जाती है।
- पर्यावरण समीक्ष सेवा उस स्थान की वास्तविक ऊर्ध्व की प्रतीक जाती है।
- सभी समीक्ष सेवाओं का मान इन सेवाओं के मध्य में बहुत छार है।
- माप की विभिन्न इकाइयों में मिलत कर दिया जाता है।
- समीक्ष रेखाएँ निश्चित अवधिकार अल्टरात पर चीरी जाती है।
- हरेक छार दो स्थानों के बीच ऊर्ध्व का स्पष्ट रूप क्षमी जाती है।
- दो समीक्ष सेवाओं के मध्य का अन्तर सदैव समान रहता है।

Teacher's Signature

# भूगोल प्रयोगात्मक (Geography Practical)

Page No. 18

- ग्रामीण इंदिराबाद के मिल पानी है। परन्तु ग्रामीण इंदिराबाद के नहीं रहना है। (परन्तु पानी के बचाव पर ग्रामीण इंदिराबाद का - दुर्योग का है।) ग्रामीण इंदिराबाद का बचाव का मतलब इन देशाओं की बाबाहता है।

उत्तराधिक अन्तराल १००० कि.मी. के समीक्षा देशाओं के मध्य अन्तराल का ऐसा अन्तर होता है। इसे उत्तराधिक अन्तराल कहते हैं (vertical interval is the difference of height between any two successive contours.) इसे सहोष में  $\Delta$  कहते हैं। यह हमेसा एक रहता है।

हैरिज तुल्यमान १००० के समीक्षा देशाओं के बीच हैरिज दुरी को हैरिज तुल्यमान कहते हैं। (Horizontal equivalent is the horizontal distance between any two successive contours.) इसे H.E. से पुकारा जाता है।


यह ढाल के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। यदि ढाल आधिक है तो समीक्षा देशाओं के मध्य की दुरी कम होगी और यदि ढाल कम है तो इनके बीच की दुरी आधिक होगी। परन्तु दूसरों की समीक्षा देशावर्त पास-पास होती है। इसलिए हैरिज क्षेत्रों की समीक्षा देशाओं का हैरिज तुल्यमान कम रहा। मैंदानी क्षेत्रों में यह आधिक होता है।

Teacher's Signature ..


Date.....

Page No. ....  
20

UNIFORM SLOPE - MILD



UNIFORM SLOPE - STEEP



Teacher's Signature

## भूगोल प्रयोगात्मक (Geography Practical)

भूगोल के विभिन्न विधियों का अध्ययन

समतल (Planitudinal slope) → जिन घटेकों में दाल में ताढ़ी विशेष  
परिवर्तन नहीं होती ताकि उनके बीच ही वहाँ है  
उपरी दाल के बीच बीचे परिवर्तन आता है, जो समतल को  
है इसमें समीच रेखाओं के लीच की दुरी एवं वर्ती है।

बन्धादर दाल (Concave slope) → पर्वतीय घेतों में विशेष के लिए<sup>पर्वतीय</sup>  
दाल तथा गिरीषपद द्वेष में मन्द दाल होते हैं। इसलिए विशेष  
के पास समीच रेखाएँ पास-पास तथा गिरीषपद के  
जिकट ये पुर-पुर होती हैं।

# भूगोल प्रयोगात्मक (Geography Practical)

Page No.



२५

Date



उत्तरोदर ढाल (convex slope) = इसमें ढाल का क्रम उत्तरोदर ढाल के लिए विपरीत होता है। शिखर के निकट ढाल मान्य तथा गिरीपद के निकट तीव्र ढाल होता है। शिखर के निकट समीक्ष्य दैर्घ्यात्मक घूर-धूर तथा गिरीपद के निकट यह दैर्घ्यात्मक पास पास होती है।

सीढ़िनुमा ढाल (Treaded slope) = इसमें समीक्ष्य दैर्घ्यात्मक जोड़ों में होती है। इसमें कहीं पर ढाल सामान्य तथा कहीं सीढ़िनुमा या स्केपरी होती है। इसलिए इसमें दो दैर्घ्यात्मक दृग युग्म के क्षेत्र में पास-पास होती है।

Teacher's Signature



Mohan  
Teacher's Signature



## भूगोल प्रयोगात्मक (Geography Practical)

Page No. 26

स्पीडीनुगा ढाल (renaced slope)  $\Rightarrow$  इसीमें समोत्त केनाएँ जोड़े गए होती हैं। इसमें कही पर दालू स्थगित नथा कही बनीटीनुगा या बोपनी होती है। इसविश्वे इसमें दो रेखाएँ एक चुम्ब के रूप में प्रस्तु पास होती हैं।

विषम ढाल (undulating slope)  $\Rightarrow$  इसे तंदणित ढाल भी कहते हैं। इसमें ढाल कही तीव्र नथा कही मर्द होती है, कही पर ढाल जल्तीदर नथा कही ठुल्तीदर होता है। विषम ढाल स्कल लहर या नरग की झाँकि असामान होता है,

Teacher's Signature

Mohan


## भूगोल प्रयोगात्मक (Geography Practical)

Page No.

26

पार्श्वदिला खाद्यावा अनुपर्याकाट (Profile of cross-section)

समोच्च रेखा मानीज पर किसी दी गई पार्श्व रेखा के सहारे भू-तल की लहारी स्पर्शेवा के निष्पत्ति को पार्श्वदिला लाहते हैं। इसे अनुपर्याकाट अथवा पार्श्व प्रिति भी कहते हैं। यदि इसातल पर इस्थित किसी स्थलस्त्रप्ति को एक सरल रेखा के सहारे घोड़े तल में ऊपर से नीचे तक काटकर उसके एक भाग को हटा दिया जाता है तो वहे इस भाग का अणरी किनारा या व्यीमा रेखा उस स्थल की पार्श्वदिला को प्राप्त करते हैं। जिस सरल रेखा के सहारे स्थलस्त्रप्ति को काट गया है वह उस पार्श्वदिला की काट रेखा (line of section) कहलाती है। इसे सरल रेखा के स्पर्शिता या निरछा किसी भी दिवा में नीचा जा सकता है।



Teacher's Signature

भूगोल प्रयोगात्मक (Geography Practical) Page 6

Cheng Hsia, 23

Teacher's Signature

John

## भूगोल प्रयोगात्मक (Geography Practical)


Page No. 34

मोट दलान और छही दलान  $\Rightarrow$  मोट दलान और छही दलान दोनों  
दलान ही व्यक्ताएँ के हैं। दलान भूमि की स्थिति का सूचनादाता है।  
छही दलानों को ज्ञानों के रूप में परिभ्राष्ट किया जाता है।  
जो ऐसा विश्ववित्त प्रतिक्रिया दलान से उत्पन्न होते हैं। छही दलान  
अम्बर अथवा पर्यावरणीय विश्वेषताओं जैसे व्याक आउटफॉल्स  
उपग्रही गिरी, लैडराफ़ और बुफल विस्तैर से जुड़ी होती है।

छही दलान  $\Rightarrow$  छही दलान अर्थ है वह भूमि जहाँ किसी गतिविधि  
या विकास की स्थिरास्रिता नहीं की जानी है या दलान की दलान  
स्माइट की मिट्टी की विशेषताओं के नारा व्यवाह रूप से उपयुक्त  
के रूप में वर्णित है। जैसा कि उपवर्ष्य लाउली मिट्टी व्यवर्ष्या  
या अन्य तरलीकी स्थिरों में मैंप और वर्गित है। जब तक कि  
उपयुक्त डिजाइन जैसे निर्माण तरलीकी और खेती न हो सके  
अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार प्रथाओं का उपयोग किया  
जाता है।


Teacher's Signature

Date \_\_\_\_\_



Teacher's Signature

Date.....



उत्तर दिशाने की ओर वार्षिक तुलना में निचले नमाग में समीपवर्ती समौत्त्व श्रेष्ठान्तर (एडी)।

अवतार छवान - निचले दिशों की तुलना में शीघ्र पर कारीय समौत्त्व श्रेष्ठान्तर।

Teacher's Signature

## भूगोल प्रयोगात्मक

(Geography Practical)

PAGE NO. 33

जलान दलान → रुक गुरुगांग की विभागीय जौ किसी गौत्रे या इल की बाहरी गांग की तरह सुमावदार या गौत्र देती है, अर्थात् कम प्राप्ति से आधिक रक्ती की ओर जाती है। उलान दलान आपत्तीर पर अवतल दलानों की तुलना में कम सुरक्षित होता है, लेकिन अवतल दलान इमर्स्यनलन की ओर सकता है।

फलान का आकार → गोह दलान अवतल से उलान से, या तरीय से, आमतौर पर महत्वपूर्ण अनार जैसी होता है। दलान के आकार के दावपुरुद किसी भी रक्ती दलान पर विना मौटे लंगर के इमर्स्यनलन होता है। दलान का आकार छोड़ दलानों की तुला में छोटे दलानों पर आधिक अनार करता है।

अवतल दलान → अवतल दलानों पर, हाई - स्लिथ को मुफ्त होने से शैकने के लिए कमी - कमी सीच से पर्याप्त संपीड़न समर्थन होता है, लेकिन मध्यम से बड़े दलानों पर, संपीड़न समर्थन बहुत कम न्युमिक निष्पाता है।

TEACHER'S SIGNATURE \_\_\_\_\_

# भूगोल प्रयोगात्मक

## (Geography Practical)

PAGE NO. 34


शोधताकार पहाड़ी

रक्षण शोधताकार पहाड़ी (चांडु या चांडवाकार पहाड़ी हैं) या चिक्कीह शोधताकार आकृति वाला रक्षण जू-गांग आकृति है। यह आमतौर पर गालग - घट्टा होता है। या अन्य आसपास की तलहटी से ऊपर उठता है, और ऊपर स्थानान्तर ज्वालामुखी मूल या होता है।

शोधताकार पहाड़ियों या पहाड़ गालग-गालग आकार में होते हैं, और इसकी जटी कि ज्यामितिय आकार के चांडु हो : कुछ लाधिल भीनार के आकार हैं या पहाड़ि के स्थल तरफ असामित रक्षण हैं। आमतौर पर, हांलाकि उनके पास स्थल गोलाकार आकार और रिक्की बुजाकर्ण होती है, जिनका दूल ३०° तक होता है। इस तरह के चांडवाकार पहाड़ दुनिया के सभी ज्वालामुखी निर्मित क्षेत्र में पात्र जाते हैं जैसे कि चक गोलाज्य में बोहामियन सैद्धल अपलैंड, जर्मनी में रॉन या फ्रांस में मैसिए सैद्धल।

TEACHER'S SIGNATURE \_\_\_\_\_

Date.....




गोपनीय दासि  
श्री परम अदीत  
सिंहारो के संकेत  
पृष्ठ 1

Teacher's Signature

TEACHER'S SIGNATURE \_\_\_\_\_

Date.....



पठार [वह छोटा  
आकरण के साथ  
उठी घूमि]।  
कुछ समीक्षा त्रिभुजों  
में इस दृश्य का  
संचय में समीक्षा  
रखावें।

Teacher's Signature

## भूगोल प्रयोगात्मक

## (Geography Practical)

PAGE NO. 37

**प्रश्न** → यमतल ग्रनिट का विकृत होता है जो आमतेंवर तर वासी नदी से इसान (रानी राही ब्लान) में छिपा होता है, लैंडसैफ्टी-लैंड पहाड़ों से छिपा होता है। पठारों के लिए आवश्यक सानडें जम राष्ट्रीय राहु और कुछ ऊंचा होता है। यमतल ग्रनिट का ग्रनिट भूगोल में एक पठार प्लेटो पठार या पठार खाड़ी का एक हीम है जिसमें यमतल ग्रनाइट की छाँट जाता है। एक अन्य खाड़ी का एक ठार मैदान या एक ट्रैयलर्ड की छाँट जाता है। एक अन्य खाड़ी का एक तरफ यासापास तो दोनों तर्फों से ऊपर उठा हो, यमतल एक या अधिक पहाड़ों में गहरी पठाड़ीयों या ब्लान होता है। पठारों का निर्माण कई प्रक्रियाओं द्वारा किया जा सकता है। जैसमें द्वालासुखी मैग्मा का ऊपर, उठना, लावा का छाँट निकलना है। ऐसे पानी और ग्लेशियरों द्वारा कटाव व्यामिल है। पठारों को उनके यास पास के ग्रामवर्ग के अनुसार इंटरसॉटन, डिमीट या महाहीमीय के स्प में वर्गीकृत किया जाता है। कुछ पठारों में एक छोटा स्पाट व्यक्ति हो सकता है जबकि अन्य में चौड़ी होते हैं।

TEACHER'S SIGNATURE

## भूगोल प्रयोगात्मक

## (Geography Practical)


PAGE NO. 38

Date:

प्रयोगात्मक भूगोल और ज्ञानिकान गे, यह चट्टान चट्टान का समझ देता है जिसमें लंबवत् रुक्ति परिवर्धित एक सामान्य रूप होता है। चट्टान के उत्तराकण्ठी के पश्चात् वे अप्रकृति और छाती की विशिष्टताओं को बताती हैं। तो पर, पर्वतीय छाती में दस्तों पर और नदियों के किनारे चट्टाने आम हैं चट्टान के अप्रकृति पर चट्टान से बनती है, जो अप्रकृति और छाती के द्वितीय प्रतिरूप होती है। भलच्छी चट्टानें जिनके चट्टान बनने वाले अधिक स्पष्टमान हैं, उनमें बुजुआ, पत्तपर, चुना, पत्तपर, चाल और डोलीमाड़ आमिल हैं। यांगोंडा चट्टानों के आधार पर किसी भी प्रकार का ब्लान होता है। अधिक छोटों में या ऊपरी चट्टानों के नीचे के द्वामतीर्ते पर गिरी हुई चट्टाने के खंबल के संपर्क में आते हैं। आधिक जमी बाल छोटों में मिही या ढलान ताल को अन्त्यक्ष लक्ष सकता है। इह चट्टानों में सहायक अवैज्ञानिक रूप से बोल्टन जमी है, जमी-जमी चट्टाने से एक स्थिति रिज के अन्त में लाई निकलती है। जिसमें मशाल्स चट्टान या अन्य प्रकार के चट्टान संताम बोध सहता है। तटीय कटाव से बाहरी तटरेखा के साथ समुद्री चट्टानों का निर्माण हो सकता है।

TEACHER'S SIGNATURE \_\_\_\_\_


Date \_\_\_\_\_



नम्बुदि स्पॉल्य  
स्पार्क नगर के  
विहार पर्वत के  
ओंप्र दुर्ग में  
विलीन हो  
जाते हैं।

Teacher's Signature

Date.....



जलप्राप्ति  
समौदाय रेखाएँ  
का द्याना पार  
करते समय एक  
और दूसरे के  
करीब हा  
किसी तिजोरी  
विन्दु पर विलग  
हो जाता है।

Teacher's Signature

## भूगोल प्रयोगात्मक

## (Geography Practical)

Date

PAGE NO. 41

जरूरी प्रश्न

वह झोप जहाँ वह बहा होनी का पानी उत्तराखण्ड  
पौर राज्याग्र गिरता है और इसने नदी के प्रवाह में अमुख ब्लाकोटे  
का प्रतिनिधित्व करते हैं। आठिकांडा परिस्थितियों में, नदियों  
जपरवत और निक्षेपण की प्रक्रियाओं सारा अपने प्रवाह में  
प्रतिशोधिताओं को हुआ करने की प्रवृत्ति दर्शती है। समय के  
साथ, एक नदी की लहरी फौफाड़ल (उसकी दूल का माफ) स्थेल  
किनारे वह का रूप ले लेती है। जो द्वीप का ऊपर अवस्थ  
होता है, उसकी ऊपर अपन्नी जलरण की प्रगति  
का स्थप ले लेती है। एक उनकी उपनियति जलरण की  
का स्थान उपर्युक्त है। एक डार्ने को फॉल्स या कम्भी-कम्भी  
मौतियाहिंद व्यापक होता है। याद रखा पदनाम सबसे  
आम होता है। यथा पानी की छाड़ी मात्रा व्यापिल होता है।  
जुचाई और उस ब्लान वाले इसने को जड़ जाता है।  
कॉर्सकोड यह बाल्य अक्सर नदी के किनारे छोटे-छोटे इसने  
की क्षेत्रों लागू होता है। अभी यही नदियों की कोमल  
पहुंचे जो फिर व्यापक चैनल दूल में स्थानीय वृष्टि के जिवाय  
में अंशात् प्रवाह और स्पष्टीकरण पानी का पद्धति है।

TEACHER'S SIGNATURE \_\_\_\_\_

## भूगोल प्रयोगात्मक

## (Geography Practical)


PAGE NO. 42

रेपिडस → रेपिडस युवा धाराओं में है, पानी के स्वार के साथ ही पुरानी शारावों की तुलना में स्थग्न और तेजी से होता है। जलधारा में सरम-चहानों की तुलना में तेजी से होती है या इन्हें जाती है। कहा पक्षियों को अंतर छारन के स्वर में जाना जाता है। विनोदक अपरदन का परिणाम यह होती है कि जैसे-जैसे पूलधारा धीरे होती जाती है। मजबूत चहाने वाले रहती हैं और अतः धारा के प्रवाह को तोड़ना शुरू कर देती है। वे जितने छोटे-छोटे अस्त्रे हैं, वे धारा के बलान को और अधिक होता है। इन्हें नदी के स्वर इससे की सुरक्षा को उसके रेपिडस के बर्बादी के स्तर के मापा जाता है। रेपिड का बर्बादी निर्धारित करता है कि कब तक युवा या अन्य पौत्र का उपयोग उसके निविगेट करना कितना मुश्किल है।


स्कार्पमेट ⇒ पूर्वी का स्कैप्सा फ्लैट है जहा ऊर्चिका अस्थानक बढ़त जाती है। ई-स्कार्पमेट यामतोंसे स्कैप्सा चहाने के नीचे या स्कैप्सा बलान को स्यदर्भित करता है। ई-स्कार्प स्वयं चहाने को संदर्भित करता है। ई-स्कार्पमेटसे दो स्तरीय नमूने साठों को अलग करते हैं। उपादरण के लिए ई-स्कार्पमेट तट के निचले इस्सों को ऊर्चे पठारों से अलग - करने वाला फ्लैट हो सकता है।

TEACHER'S SIGNATURE

Date




Index  
150  
140  
130  
120  
110  
100  
90  
80  
70  
60  
50  
40  
30  
20  
10  
0




Teacher's Signature

Date.....

ଜାର୍ତ୍ତିକ ପରିମଳା  
ଲିଙ୍ଗ ଲିଙ୍ଗ ।



RIDGE



SADDLE

Teacher's Signature

## भूगोल प्रयोगात्मक

### (Geography Practical)

VOLUME NINE 46

सेंजल (लैंडफार्म)  $\Rightarrow$  दो पहाड़ियाँ या पहाड़ों के बीच की काठी, विदु के आसपास का क्षेत्र है, जो चौटियों को जोड़ने वाली स्थल निकास्यी डिवाइड (कॉल) का पूना लगाने वाली देश का स्थान से निचला गिरु है। जब ऐसे अगर काठी जांगाय है, तभी वह केवल धैर्य, दो मासमाणियों के बीच एक इष्टतम पास की काठी, आमतौर पर सबसे कम मार्ग के आसान से पाया जाने वाला क्षेत्र है। जिस पर दो शिखर के बीच से गुजर सकता है।

**TEACHER'S SIGNATURE**

## भूगोल प्रयोगात्मक

## (Geography Practical)

PAGE NO. 46

Date

राष्ट्रीय विभव गोदा परिषिद्धि | यह कर्ता यह पहाड़ि जिस जेन्से  
जैसे, ऊबड़ - खाली इलाके में यह पहाड़ि, या विनाम है।  
यह दर्शी तब लगता है जब कोई गलेशियर या घारा उच्च भू-भाग  
के जेन्सों के बीच की ऊमि का छारण करती है या नष्ट हो  
जाती है।

विश्वगोदा परिषिद्धि ⇒



यह कर्ता यह पहाड़ि जिसे ऊचे,  
ज्वाला - खाली इलाके में यह पहाड़ि, या विनाम है यह कर्ता  
जैसे उनता है जब कोई गलेशियर या घारा उच्च भू-भाग के  
जेन्सों के बीच की ऊमि का छारण करती है। या नष्ट हो जाती  
है। पास अक्सर लोगों को यही पर्वत गृह्णलायी में यात्रा करने  
के लिए सबसे आसान मार्ग चारान लगता है।

कर्तल ⇒

भू-ग्राफ़ि विज्ञान में, यह कोल दो चौटियों के बीच  
पहाड़ि जिस स्थिति में निचला हिंदु है। इसे ऐप भी कहा जा  
सकता है। इलाके में विशेष रूप से ऊबड़ - खाली और निषिद्ध  
कोलों को आमतौर पर पायदान लहा जा सकता है। वे याम तौर  
पर पहाड़ के दर्जे जैसप में अनुपयुक्त होते हैं, कर्तल शब्द पर्वत  
गृह्णलायी के बजाय पर्वत से अधिक ऊँड़ा हुआ है।

TEACHER'S SIGNATURE


Date \_\_\_\_\_



Teacher's Signature

Date.....

Page No. 48



नदी और  
स्पर / शुद्धिया  
= (पहाड़िया)  
की स्तर लेवल।

स्पर / शुद्धिया  
(स्तर लेवल  
या पहाड़ि से  
छुड़ी छोटी  
लालक)।

Teacher's Signature

## भूगोल प्रयोगात्मक

## (Geography Practical)

PAGE NO. 229

स्पर्श विद्युतावधि → इसके स्थान पर उपर रक्कम पहाड़ी पहाड़ या रक्कम विद्युत की मुख्य विद्युत योग्यता है। इसे रक्कम उन्होंने पहाड़ी रक्कम पाठ्य विद्युत या विद्युत की विद्युतावधि किया जा सकता है जो रक्कम मुख्य पहाड़ी या रक्कम विद्युतावधि से पर्याप्त विद्युत में प्रोजेक्टर करता है।

- लूटोट स्पर्श जो विद्युतिका लैंड अंदाकिटिका में राखल सौराहती रैख के परिष्य की ओर रहगारी बेसिन्यर और स्लीमन गोल्फपर के निचले स्मिर्दों को अलग करता है।
- छूट स्पर्श, माउट वार्शिंगटन का स्कूल उप-शिव्वर
- माउट एवरेस्ट पर जिनीवा स्पर्श
- उत्तरी व्यायलैंड में व्यैरिन पर्वत

TEACHER'S SIGNATURE

## भूगोल प्रयोगात्मक

## (Geography Practical)

PAGE NO. 55

दाढ़ियों की लाइन (Valley) → ग्रानिट के छह लगां पर तीन दाढ़ियों को लौजें  
पे रासी राहयाता के लिए हम सामोंवा देखायेंगे का उपयोग कर  
सकते हैं। क्या आप दाढ़ियों को देख सकते हैं।  
दाढ़ियों के दोनों ओर घाड़ी जमीन, होमी और बंके बीच के अन्दर  
सज नहीं रहती होगी।



लकड़ी की लाइन → स्कूल सिज उच्च जमीन की स्फुट दैखता है, जिसके दोनों ओर स्ट्रोंग  
जमीन दिखती है। दो पहाड़ी नोटियों के बीच में लटक आम है।  
जैसे कर्कि मौर स्नार के बीच में  
स्कूल शिन्दु पर निम्न लों काल या सीड़ल का जाता है।

• स्पर्स → स्कूल स्पर्स जमीन की स्फुट लम्बी धीरे - धीरे लान वाली  
जीभ देती है, जो स्फुट पहाड़ी से नीचे की ओर जाती है।  
स्पर्स अम्सून उच्च जमीन तक, पैदल चलने वालों के लिए सड़कों  
के लिए, आदि तक पहुंच प्रदान करते हैं।

• कठठ → स्फुट कठठ पहाड़ियों या पहाड़ों के बीच स्थित रहती,  
घररहीली दीवारों वाली स्फुट संजनी दाढ़ियों है।


TEACHER'S SIGNATURE \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_



Teacher's Signature

Date \_\_\_\_\_



Teacher's Signature

## भूगोल प्रयोगात्मक

## (Geography Practical)

PAGE NO. 63

वीर लोकार्थ तीरे घाटियों → वीर लोकार्थ तीरे घाटियों की आकार और की सांख्यिकी का पता लगवाना हो गया। इनका नियमित उद्देश्यों की अपश्चिम ओरियाओं से होता है। इनकी आकृति अमरजी लोकों के लिए बहुत जापानी है। ये घाटियों घाटियों आदि के पुढ़ी हैं।

TEACHER'S SIGNATURE \_\_\_\_\_

## भूगोल प्रयोगात्मक


## (Geography Practical)

PAGE NO. 54

Date आकार की धारि →



युआकार की धारियाँ जिन्हें गति सारियों द्वा लिमिटेड गति की भाव जाता है, अनन्दी की प्रक्रियों से बनते हैं। वे विशेष स्पष्ट से पर्वत हिमाच्छादन की विक्रीपता हैं। क्रॉस - सेक्शन में उनके पास स्कूल विशिष्ट युआकार होता है। जिसमें खड़ी, व्यापक झुपाएँ और स्कूल स्पष्ट द्वारा गोल तल होता है। इसके विपरीत, नदियों द्वारा उनकी गई धारियाँ क्रॉस - सेक्शन में गी - ओवल की होती हैं। हिमाच्छादित धारियाँ तब बनती हैं जब स्कूल रेलेशियर लाने के पास और नीचे चाला करता है। धारि को परिमार्जन की किया द्वारा तराणाता है। जब वहाँ गिरती है या पिघलती है तो धारि घानी रहती है। अवृत्त छोटे - छोटे विलायणों से बढ़ते पड़े होते हैं। जिन्हें बफ के भीतर ले जाया जाता है जिन्हें हिमनदों तक या हिमजदों का अनिष्टित कदा जाता है।

Date.....



Teacher's Signature

Date.....



Teacher's Signature

## भूगोल प्रयोगात्मक (Geography Practical)

Page No. ५४

पानी की छाड़ि → यह पानी का अतिर बड़ा उत्तराखण्ड है जो लगते पानी के पर्वत ऊंचालों द्वारा उत्तराखण्ड के माहायम नदी बहाया है और जो भाज नदी पानी लेता है। इसे उत्तराखण्ड जौ अन्य पानी की शाक्षात्कृती ले जाता है, परन्तु अंतर्राष्ट्रीय अवस्था पर्वत के उत्तराखण्ड और हरा के उत्तराखण्ड अवस्था पर्वत की बाधा को पार रास्ते के लिए सड़क और रेल परिवहन के लिए यह व्यावहारिक गार्ड पदान करते हैं।

झील → यह झील पानी का यह पिंड है जो जमीन से छिरा हुआ है। उन्हिंन में लाखों झीलें हैं। वे दूर महाद्वीप पर और दूर तरह के ताजावर्णन में पाल जाते हैं - पदांड़ों और सेगिस्तानों में, मैदानों पर और समुद्र तटों के पास। झीलें के उत्तरार्द्ध में घट्ट बिल जैसी हैं। कुछ केवल कुछ बर्ग मीटर भाषेते हैं, ऐसी क्षात्री झीलें जो अवस्था तालाब बना जाता है अन्य झीलें इतनी बड़ी हैं कि उन्हें समुद्र बना जाता है।

Teacher's Signature .....

## भूगोल प्रयोगात्मक (Geography Practical)

Page No. 63



विषय

एक नदी या जलकुंड के नेटल में नियमित पाणी वालों की जबकि उत्तराखण्ड में से एक जलकुंड के रूप में उत्तराखण्ड होती है जो एक वाहनी, जलधारा वेंडों की तलाश को मिटा देता है। और एक आनंदिक जलकुंड लैंडों पर जासा तलाशल जो आगतींसे पर एक विद्यु पट्टी होती है किसी नहीं, जो नाले या अन्य जलधारा के नेटल के बुम्ने की डिसी जो उत्तराखण्ड सिन्धुसिंही से माना जाता है। एक जलकुंड की सिन्धुओंसिंही नेटल की लम्फाई और नीची रेखा के नीचे - चाली की दुरी का मनुष्यान्त है। एक नेटल वाली धाराएँ या नदियाँ और 1-5 या उससे ऊरीक की सिन्धुसिंही को बाह्ने वाली धाराओं या नदियों के रूप में परिभाषित किया गया है।

- नदी की छाते → छातों को कई तरह से और कई ज्युगार्थिक उपर्युक्त व्यावरणीय सैंटिग्रेस में बनाया जा सकता है। छातों के आकार, आकार और उभ्र का मध्ययन करें, उन्हें बनाने वाली ज्युगार्थिय प्रक्रियों का निर्धारण किया जा सकता है। जब किसी छात में छातों की आयु और या आकार समान होता है, तो यह सम्पत्ति संकेत देता है।

Teacher's Signature

Date.....




Teacher's Signature

Teacher's Signature

Date.....

Page No. .... 60



Teacher's Signature

## भूगोल प्रयोगात्मक (Geography Practical)

Page No. 61

Date

### देस का टीला - (SAND DUNES)

देस का टीला का कोई संतरणीय रूप नहीं आकर देस के दोनों पश्चाव में ध्वनुस्त्रियालय के रूपमें उत्तरी है। जब तब दिखाई देते हैं जब तब एक रुक्की द्वितीय विस्तर पर बलता है जोंसो की नदियों के तल पर छाली के नीचे हिंडा और उच्चले समुद्र के नीचे महाद्वीपीय अस्त्रालियों पर छवरीय मुहान और देस की लहरें। इत्था पास जाते हैं जहाँ टीली देस हवा में उड़ाई जाती है। देशिस्तान में समुद्र तो पर और यहाँ तक कि अर्ध व्युद्धक छेत्रों से उत्तर पश्चिम भारत और दक्षिण पाश्चिम व्युद्धक साध्य के कुछ हिस्सों से कुछ जट और परित्यक्त छेत्रों पर व्या की की छारियायुस्स्प मैरिनर उद्घाटा लैंटार्ड गर्ड मंगल और घाइलिया प्रतारिक यान ने दिखाया है। कि उस ग्रह पर क्रेटरों में और उत्तरी छुवीय घर्की की टोपी के आस-पास के देशीय समुद्र में टीलों की व्यापक रूप से वितारित किया जाता है।

Teacher's Signature

# भूगोल प्रयोगात्मक (Geography Practical)

Page No. ....

82

शीतरहेंगे विलक  $\Rightarrow$  ग्रैटरहेंग मिलक उत्तरीधर्म देश की रक्षा  
करना है जो दौलीस्टोन नेशनल पार्क में ऐलोस्टोन टोप  
ग्रैट टैंकर के उल्तरी रिस एवं टॉवर फॉल के उल्तर में  
दो लुप नोड को ऊपर से है। इस विद्यु का नाम  
1963 में ब्रूक - फॉल्सन - पीटरसन अग्निधान के रूप संदर्भ  
डॉक्टर फॉल्सम छाता रखा गया था। अमेरिका में सुकमाल स्थाप  
है जहां बहुत सीधारे पास जारी है।

समीक्षा रेखा  $\Rightarrow$  दो चरों के एक फॉल्सन की एक समीक्षा  
रेखा (ब्राइसोलिंग, आइसोप्लेथ, या इस्प्रियम) एक वक्त है  
जिसके साथ फॉल्सन का एक इस्प्रिय मूल्य होता है, ताकि  
वक्त सामान्य मूल्य के विन्दुओं में शामिल हो पाए। यह  
फॉल्सन की जिस साथ सांघरणामी ग्राफ एक समातल घोड़े  
(B, P) के समानान्द (N, P) विमान। आम तौर पर,  
दो चर के एक फॉल्सन के लिए एक समीक्षा  
रेखा एक वक्त कर्नोलिंग पॉइंट होती है जहां फॉल्सन  
का एक ही विवेच मान होता है।

Teacher's Signature

## भूगोल प्रयोगात्मक (Geography Practical)


Page No. 82

जीवरहैंगेरा विलक  $\Rightarrow$  जौहरहैंगेरा विलक उत्तराधिक शेषाल की रक्षा  
पद्धति है जो दोलीवर्तीन नैदानिक पार्क में चैलोस्टोन के  
ग्राह रैखियन के उल्लंघन से इस एवं लोहर फोल के उल्लंघन में  
गोड लुप्त नोड को बचाव करती है। इस विठु का नाम  
1859 से कुक - फोल्सफन - पीटरसन अधिग्राहन के रूप सदृश्य  
उपर्युक्त पाल्सम छाता करवा गया था औ अमेरिका में समाप्तस्थित  
है जहाँ कंदूर रैखियन पार्क करती है।

समोच्च रेखा  $\Rightarrow$  दो चरों के एक फॉक्सन की एक समोच्च  
रेखा (व्हाइट्सोलिंग, आइसोप्लेय, या इस्टरियम) सक वक्त है  
जिसके साथ फॉक्सन का एक स्थित मूल्य होता है, ताकि  
एक सामान्य मूल्य के विन्डुओं में शामिल हो जाए। यह  
फॉक्सन की तिथि साझा सामान्यमी ग्राहण एक समाल रखते हैं  
(प. 4) के समान्तर (प. 4) विमान। आम तौर पर,  
दो चर के एक फॉक्सन के विस्तर एक समोच्च  
रेखा एक वक्त करती है। पॉइंट होती है जहाँ फॉक्सन  
का एक ही विवेच मान होता है।

Teacher's Signature

Date.....




overhanging cliff and its contour

Teacher's Signature

Page No. .... 64

Date .....



Unskill

Teacher's Signature

## भूगोल प्रयोगात्मक (Geography Practical)

Page No. 65

प्रौद्योगिकी अनुमति (Geography practical) → कॉलेजीन साहाय्य मान देने का अनुमति  
प्रौद्योगिकी अनुमति के लिए कॉलेजीन राजस्वालय का अनुमति  
प्राप्ति करना चाहिए। इसके लिए जान दें।

• अधिकारी का नाम, विविध भूमि, प्राविष्ठान भूमि, औपचारिक  
सम्बन्धित भूमि, भूमि, विविध भूमि, प्राविष्ठान भूमि, औपचारिक

प्रौद्योगिकी

• उड़ा ना अवलोकन करना, भूमि, स्थान, कर्मा और  
स्थानीय जनसंख्या, स्थानीय साक्षात्कार, विकासीय विकासीय  
जनसंख्या।  
• अधिकारी का नाम, विविध भूमि, प्राविष्ठान अपकरण विविध विविध  
जीवाओं की स्थानीय स्थानीय

Teacher's Signature

भूगोल प्रयोगात्मक (Geography Practical)  
Page 1

Page No. 6

विवेचनात्मक अंतर्प्रेत (interpretation)  $\Rightarrow$  interpretation, अर्थात् [Mean] अर्थात् [Mean]

विषयालयकरण) ताकि वह अपनी उत्तर प्रेषण के पुर्णतर रूप में विस्तृत के मात्रिया को देख सकें। व्यापक आधारों पर विभिन्न विषयालय (विभिन्न विधायिका) का अनुसरण रखनी है। इनमें तात्पुर चौथा के नाम से भी जाना जाता है। पहले दो जनन में भूमत्ता तथा तात्पुर विषयालय के बाबत सिपाही, दिल्ली तथा अमेर शामिल थे।

भूगोल प्रयोगात्मक (Geography Practical)

卷之六

Page No. 67

प्रतिक्रिया के अनुसार विभिन्न विधियों की विवरण हैं:

- विधि 1: विधि-1 का उल्लेख किया गया है।
- विधि 2: विधि-2 का उल्लेख किया गया है।
- विधि 3: विधि-3 का उल्लेख किया गया है।
- विधि 4: विधि-4 का उल्लेख किया गया है।
- विधि 5: विधि-5 का उल्लेख किया गया है।
- विधि 6: विधि-6 का उल्लेख किया गया है।
- विधि 7: विधि-7 का उल्लेख किया गया है।
- विधि 8: विधि-8 का उल्लेख किया गया है।
- विधि 9: विधि-9 का उल्लेख किया गया है।
- विधि 10: विधि-10 का उल्लेख किया गया है।
- विधि 11: विधि-11 का उल्लेख किया गया है।
- विधि 12: विधि-12 का उल्लेख किया गया है।
- विधि 13: विधि-13 का उल्लेख किया गया है।
- विधि 14: विधि-14 का उल्लेख किया गया है।
- विधि 15: विधि-15 का उल्लेख किया गया है।
- विधि 16: विधि-16 का उल्लेख किया गया है।
- विधि 17: विधि-17 का उल्लेख किया गया है।
- विधि 18: विधि-18 का उल्लेख किया गया है।
- विधि 19: विधि-19 का उल्लेख किया गया है।
- विधि 20: विधि-20 का उल्लेख किया गया है।
- विधि 21: विधि-21 का उल्लेख किया गया है।
- विधि 22: विधि-22 का उल्लेख किया गया है।
- विधि 23: विधि-23 का उल्लेख किया गया है।
- विधि 24: विधि-24 का उल्लेख किया गया है।
- विधि 25: विधि-25 का उल्लेख किया गया है।
- विधि 26: विधि-26 का उल्लेख किया गया है।
- विधि 27: विधि-27 का उल्लेख किया गया है।
- विधि 28: विधि-28 का उल्लेख किया गया है।
- विधि 29: विधि-29 का उल्लेख किया गया है।
- विधि 30: विधि-30 का उल्लेख किया गया है।

Teacher's Signature \_\_\_\_\_